

चंडीगढ़ में बनी नकली शराब लेकर जा रहे थे बिहार, पाच तस्कर गिरफ्तार



जागरण संवाददाता, भदोही: क्राइम ब्रांच व भदोही पुलिस ने कस्बे के इंदिरा मिल चौराहे के पास बुधवार की रात घेराबंदी कर एक ट्रक से चंडीगढ़ निर्मित 366 पेटी अंग्रेजी नकली शराब बरामद की। बोटलों पर बाटम्स अप ब्राड्स व्हीस्की लिखा है। उसे फालो कर रही क्रेटा कार को भी रोक लिया, दोनों वाहनों से पाच लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए तस्कर दिल्ली व हरियाणा के निवासी हैं।

पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार ने गुरुवार को कोतवाली में बताया कि क्षेत्राधिकारी क्राइम ब्रांच व कोतवाली की टीम कई दिनों से तस्करों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए लगी थी। तस्कर रास्ते बदल-बदलकर निकल जाते थे। बुधवार की रात एक ट्रक जौनपुर होते हुए इंदिरा मिल चौराहे पहुंचा था। जिले की सीमा में प्रवेश करते ही पुलिस को भनक लग गई थी। ट्रक के पीछे एक कार भी चल रही थी। चौराहे पर ट्रक को रोका तो कार बगल से होकर भागने लगी। पुलिस ने उसे भी रोक लिया।

ट्रक की तिरपाल हटवाकर अंदर देखा तो पेटियों में शराब की बोटलें थीं। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि यह शराब नकली है और इसे बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेचते हैं। कैमिकल से बनाई थी शराब

तस्करों ने बताया यूरिया, स्प्रिट, रंग मिलाकर यह शराब बनाई गई है। फर्जी क्यूआर कोड लगाकर बाटम्स अप ब्राड का लेबल लगाया और इसे बिहार व पूर्वी उ.प्र. के जिलों में ले जाते हैं। इस कार्य में वह काफी दिनों से कर रहे थे। वे कभी हाईवे तो कभी जौनपुर, सुरियावा, ज्ञानपुर के रास्ते शराब की खेप ले जाते हैं। गिरफ्तार तस्कर दिल्ली, हरियाणा के निवासी

गिरफ्तार तस्कर कुलदीप शर्मा ब्लाक धर्मापुर नजफगढ़ नई दिल्ली का है। राजन व विक्रम दहिया ओल्ड रोशनपुरा नजफगढ़, राकेश जाट मुरादपुर टेकैना जिला रोहतक हरियाणा का रहने वाला है। ट्रक चालक नरेश राजपूत जिला सिरगौर हिमाचल प्रदेश का निवासी है।

Source: <https://www.jagran.com/haryana/sonipat-asda-dfgb-22727027.html>